

जैन समाज के वे सभी महानुभाव जिनकी वार्षिक इनकम ₹ 8,00,000/- से कम है वह EWS सर्टिफिकेट अवश्य बनवायें !

10% EWS आरक्षण के लाभ से अपने क्षेत्रवासियों को अवगत कराएं और EWS Certificate बनाने में लोगों की मदद करें।

केंद्र और राज्य ने गरीब लोगों के लिये अलग से 10% EWS कैटेगरी में आरक्षण दिया है जिसे EWS (Economically Weaker Section) कैटेगरी कहा जाता है जिसके लिये सामान्य वर्ग के ज्यादातर लोग पात्र हैं और EWS के हकदार हैं।

ये आरक्षण हमारे समाज के आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अफसोस के EWS के 10%आरक्षण को लेकर जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है, इसलिये EWS को लेकर जागरूकता और प्रचार करना जरूरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है !

पात्रता

जो भाई/बहन सामान्य वर्ग से है और जिनकी सालाना उत्पन्न यानी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है वह इस आरक्षण के लिये पात्र है!!

शैक्षणिक क्षेत्र में फायदा:-

सभी शिक्षण संस्थानों में सभी कोर्सेस के लिये 10% सीट्स EWS कैटेगरी के लिये आरक्षित है और फीस में भी सहूलियात मिलती है।

- 11th ,12th
- Diploma, graduation,
- Post graduation
- BA, BSC, B.COM
- D.ed, B.Ed
- Medical, pharmacy, nursing
- Engineering, polytechnic,
- LLB
- ITI etc...

शासकीय नौकरियों में फायदा:-

गवर्नमेंट की हर नौकरी में 10% नौकरियां EWS कैटेगरी के लिये आरक्षित है।

क्लास 4 से लेकर क्लास 1 गजेटेड (सिपाही से लेकर कलेक्टर) तक की सभी नौकरियों में EWS आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

मोदी सरकार ने 29July 2021 को घोषणा की कि अब Medical Education में ऑल इंडिया कोटे के तहत 2021-22 के एकेडेमिक सेशन से ही एमबीबीएस (MBBS) एमडीएस, एमएस, डिप्लोमा और एमडीएस कोर्सेस में भी ऑल इंडिया कोटे के तहत आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

10% EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिये आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है!!

महाराष्ट्र /मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ /झारखण्ड/बिहार/उ.प्र.में EWS सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें??

EWS सर्टिफिकेट तहसीलदार के ऑफिस से मिलता है, आपको अपने तहसील के सेतु सुविधा केन्द्र च्वाइस सेन्टर या ई-सेवा केंद्र से आवेदन करना पड़ेगा।

आवश्यक दस्तावेज :-

-पालक/अभिभावक का वार्षिक उत्पन्न/ आय प्रमाणपत्र

- लाभार्थी का आधार कार्ड

- टी. सी. या निर्गम उतारा/जन्म प्रमाणपत्र

इस संबंध में समाज का कोई भी व्यक्ति आगे आ कर अपने बंधुओं की सहायता कर सकता है।

यह एप्लिकेशन डाउनलोड कर लें, पूरा भरकर , तहसीलदार के पास डॉक्यूमेंट के साथ जमा करने पर EWS का सर्टिफिकेट मिलेगा।